

दिनांक 06 जून, 2015 कोसायं 03:30 बजे से मर्चेन्ट्स चैम्बर आफ उत्तर प्रदेश, इण्डियन इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन एवं एमएसएमई, विभाग-भारत सरकार मंत्रालय, के संयुक्त तत्वाधान में क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी टेक्नोलॉजी टूल्स के द्वारा एमएसएमई के उत्पादन एवं गुणवत्ता सुधारों पर एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

श्री आर.के. प्रकाश, सहायक निदेशक, एमएसएमई-विकास संस्थान, कानपुर ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि "क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी टेक्नोलॉजी टूल्स" के माध्यम से उत्पादकता वृद्धि के बारे में जानकारी देते हुए उपस्थित उद्यमियों को इसका लाभ उठाने का आह्वान किया।

डॉ. आई. एम.रोहतगी, अध्यक्ष, मर्चेन्ट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश, कानपुर ने संगठन के क्रियाकलापों से सभी को अवगत कराया। साथ ही एमएसएमई मंत्रालय द्वारा उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए चल रही योजनाओं का भरपूर उपयोग करने हेतु उद्यमियों से आग्रह किया।

कार्यक्रम में एमएसएमई-विकास संस्थान, कानपुर के उपनिदेशक, श्री एल.बी.एस.यादव ने अपने संबोधन में भारत सरकार, एमएसएमई मंत्रालय द्वारा संचालित की जा रही विभिन्न राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मक कार्यक्रम

(NMCP) योजनाओं के बारे में विस्तार में बताते हुए उद्यमियों से इनका लाभ उठाने का आग्रह किया।

तकनीकी सत्र में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् के डॉ. एम.एम.ए. खान ने क्वालिटी टेक्नोलॉजी टूल्स जैसे 6-सिग्मा, टीपीएम, 7-क्यूसी, 5-एस सिस्टम काईजन टूल्स आदि पर विस्तार से प्रकाश डाला। डॉ. मनोज दिवेदी,

विभागाध्यक्ष, राजकीय डिग्री कॉलेज, उन्नाव ने अपने संबोधन में आईएसओ की समस्त सीरिज जैसे आईएसओ-9001, 14001, 18001, 22000, 27000 पर विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया एवं एमएसएमई क्षेत्र में "क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स" की आवश्यकता पर बल दिया।

कार्यक्रम के अंत में "क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी टेक्नोलॉजी टूल्स" पर विषय विशेषज्ञों से उद्यमियों द्वारा खुली चर्चा कर समाधान प्राप्त किया।

कार्यक्रम के अंत में धन्यवाद प्रस्ताव श्री अमित बाजपेई जी ने दिया।

कार्यक्रम में संस्थान के श्री अमित बाजपाई, संस्थान निदेशक, श्री जे. साहू, सहायक निदेशक, श्री पी.एस. बाजपेई, श्री मिश्रीलाल, एवं मर्चेन्ट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश, इण्डियन इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन के सदस्यगण तथा एमएसएमई के अधिकारी उपस्थित थे।